



जनसम्पर्क कार्यालय : एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर
समाचार

पावर ट्रांसमिशन कंपनी में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया
40 अधिकारी-कर्मचारी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित

जबलपुर, 18 अगस्त। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक श्री पी.ए.आर. बेंडे ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नयागांव में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कंपनी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 40 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रबंध संचालक द्वारा सम्मानित किया गया। श्री बेंडे ने इस कैलेण्डर वर्ष में 31 नए उपकेन्द्र स्थापित करने के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य में से 18 उपकेन्द्रों का कार्य पूर्ण कर लेने पर हर्ष व्यक्त किया तथा जुलाई माह में 6 नए उपकेन्द्र स्थापित कर एक माह में सर्वाधिक उपकेन्द्र क्रियाशील कर कीर्तिमान बनाने पर अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी।

श्री बेंडे ने 13 अगस्त 2018 को राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा बैकअप भार प्रेषण केन्द्र भोपाल से आपदा प्रबंधन के अंतर्गत लगातार 5 घंटे भार प्रेषण केन्द्र का संचालन पूर्णतः क्रियान्वित कर, देश का दूसरा राज्य भार प्रेषण केन्द्र होने का गौरव प्राप्त करने पर भी सभी को बधाई दी। श्री पी.ए.आर. बेंडे द्वारा विगत 5 वर्षों में कंपनी द्वारा पारेषण हानि कम करने एवं प्रणाली की उपलब्धता अधिक बनाए रखने बाबत नियामक आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्य से ऊपर रहने पर जहां प्रसन्नता व्यक्त की वहीं रबी सीजन में लोड बढ़ने पर कर्मियों को पूरी तरह से तैयार रहने हेतु आह्वान किया। प्रबंध संचालक द्वारा अपने संबोधन में कंपनी में अपनाई जा रही नई तकनीकों, कर्मियों की दक्षता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से आयोजित प्रशिक्षण पर भी चर्चा की।

इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वश्री राकेश कुमार चौरसिया, ए.के. मंगल, आकाश प्रताप सिंह, धर्मेन्द्र सोलंकी, अशोक कुमार शुक्ला, मंगल पनिका, यशवंत कोरी, पीताम्बर कछवाहा, अमित महरोलिया, मोहित शर्मा, डी.के. पाराशर, अरविंद कुमार शर्मा, शशि शेखर, आर.के. उपाध्याय, दिनेश बिहारी श्रीवास्तव, ज्ञानेश्वर शर्मा, संतोष कुमार गौतम, पवन मांद्रे, देवीलाल मालवीय, निजाम सिंह लोधी, राजेश कुमार चतुर्वेदी, जगन्नाथ पाटीदार, राकेश कुमार सोनी, गुलशन कुमार क्षेत्रपाल, गिरीश नापित, राकेश कुमार श्रीवास्तव, दिनेश कुमार टाटावत, हरिलाल बर्मन, रवि शंकर कार्तिकेय, हर नारायण टाले, भगवानदीन पासी, भारत रजक, मनोज रजक, कृपाराम शर्मा, रामनिवास उइके, सौरभ सोनी, प्रदीप शुक्ला, सनत कुमार जैन, अशोक कुमार वर्मा एवं सुबोध धांडे को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का संचालन मुख्य अभियंता मानव संसाधन एवं प्रशासन श्री एस.के. गायकवाड़ एवं आभार प्रदर्शन मुख्य अभियंता परीक्षण एवं संचार श्री एफ.डी. ठाकुर ने किया।

समाचार क्रमांक 390/2018

(राकेश पाठक)
वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी